



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 6—नवम्बर 12, 2004 (कार्तिक 15, 1926)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 6—NOVEMBER 12, 2004 (KARTIKA 15, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 2004

सं. 555, दिनांक 13 अक्टूबर 2004—राष्ट्रपति, श्री एम.के. मुखर्जी को 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में 28 मई 2004 के पूर्वाह्न से रक्षा मंत्री के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) के अन्तर्निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, श्री विन्मनाथन के. को 6,500-10,500/- रुपये के वेतनमान में 25 जून 2004 के पूर्वाह्न से रक्षा उत्पादन मंत्री के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री बी.के. खड्क) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. सरस्वती

उप सचिव

नेत्री

रक्षा मंत्रालय—एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

सं. 556, दिनांक 8 अक्टूबर 2004—राष्ट्रपति सहर्ष सरस सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निजी सचिव श्रीमती हेमलता मधवन सीमित

विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2002 में सफल होने पर सरस सेना मुख्यालय सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नत होने पर दिनांक 30.04.2004 से वेतनमान रु. 6500-200-10500 में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष सरस सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायक श्री के. जी. मैथ्यू को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2002 में सफल होने पर सरस सेना मुख्यालय सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नत होने पर दिनांक 30.04.2004 से वेतनमान रु. 6500-200-10500 में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष सरस सेना मुख्यालय सिविल सेवा के उप निदेशक (राजभाषा) श्री डी. बी. तिवारी को दिनांक 23.08.2004 से संयुक्त निदेशक (राजभाषा) (ग्रुप 'ए' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 12000-375-16500 में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष श्री बी.पी. बरसेमाना, निजी सचिव को दिनांक 20.08.2004 से 31.12.2004 तक अथवा नियमित चयन सूची से उम्मीदवारों की उपलब्धता तक अथवा उक्त व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने के समय में से जो भी पहले हो, सरस सेना मुख्यालय की आनुलिपि सेवा में अस्थायी आधार पर प्रधान निजी सचिव (कॉ 'क' वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई आधार पर होगी तथा प्रशासनिक कारणों से बिना पूर्व सूचना दिए समाप्त की जा सकती है। अधिकारी का उपर्युक्त तदर्थ आधार पर मिली पदोन्नति पर स्थायी नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं होगा। उनकी प्रधान निजी सचिव की अस्थाई नियुक्ति की अवधि को चरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाएगा।

राष्ट्रपति सहर्ष श्री विनय ग्रोवर, वर्यक्तिक सहायक को दिनांक 30.06.2004 से दिनांक 30.06.2004 तक अथवा नियमित चयन सूची से उम्मीदवारों की उपलब्धता तक के समय में से जो भी पहले हो, सशस्त्र सेना मुख्यालय की आशुलिपि सेवा में अस्थायी आधार पर निजी सचिव (वर्ग 'ख' राजपत्रित वेतनमान रु. 6500-10,500/-) नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त अधिकारी की निजी सचिव के रूप में नियुक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपि सेवा नियमावली, के अधीन निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है :--

- (क) ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर होगी तथा प्रशासनिक कारणों से बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।
- (ख) उपर्युक्त पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी अस्थाई नियुक्ति की अवधि को चरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

सन्तोष दासगुप्ता
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

वायु सेना

सं. 557, दिनांक 11 अक्टूबर 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति मूल रैंक में करते हैं :--

भारतीय वायु सेना
प्रशासनिक शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

एस यादव (23005), दिनांक 18 जून 2004 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में

एस मेहता (25952), दिनांक 01 जनवरी 2003 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में

एस हरिकृष्णन (25967), एन रजनीकांत सिंह (25968), वाई. एल खान (25995), एल जे असीष (26002), वी गणेशन (26275), दिनांक 01 जनवरी 2003 से।

उड़ान पायलट शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

के एस काकड़े (22330), आर रामलिंग (22333), दिनांक 20 फरवरी 2003 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

एम पी सिंह (22295), दिनांक 06 फरवरी 2004 से।

उड़ान पायलट शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में

दीपती रॉय (25347), दिनांक 19 दिसम्बर 2002 से।

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में

मनुज शर्मा (25646), दिनांक 19 जून 2003 से।

संजीव श्रीवास्तव

स्क्वाड्रन लीडर

डी डी पी ओ 3(डी)

भल सेना विभाग

सं. 558, दिनांक 11 अक्टूबर 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

भल सेना विभाग

स्थाई कमीशन

ले. कर्नल से कर्नल

आर एन कोठारी (एमआर-04037वाई), 02 अगस्त 2003 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक चरीयता 01 अक्टूबर 2000 से दी जाती है।

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष)

एम एल चावला (एमआर-2068ए), 03 अप्रैल 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक चरीयता 01 जुलाई 2002 से दी जाती है।

कोर ऑफ सिगनल्स

स्थाई सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार रामाचन्द्रन पी (जेसी-371957एफ), 04 जून 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मई 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-370953वाई), 03 जून 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मई 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार विशेष कुमार (जेसी-371958के), 21 जून 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार महेन्द्र पुसेठ (जेसी-371959एम), 01 जून 2004

स्थाई सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार आर रथिनासाबापधि (जेसी-371998एल), 02 फरवरी 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार ज़ही जी नम्बियार ए सी (जेसी-372011एफ), 01 मई 2004

नायब सूबेदार फन्डे बालाप्रसाद सी आर (जेसी-372013एम), 20 जून 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सलिल बरन राय (जेसी-372014पी), 01 मई 2004

नायब सूबेदार एम एस चौहान (जेसी-372017एच), 01 मई 2004

नायब सूबेदार राजू राम (जेसी-372020एच), 01 जून 2004

नायब सूबेदार नित्यानंद राय (जेसी-372021एल), 01 जून 2004

नायब सूबेदार कादर सिंह बघेल (जेसी-372022एन), 11 जून 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अरुण प्रसाद (जेसी-372024आई), 01 जून 2004

नायब सूबेदार असोक कुमार (जेसी-372027एच), 01 जून 2004

नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-372029एक्स), 19 जून 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

स्थाई सूबेदार (ओ पी साइफर) के रैंक में

नायब सूबेदार ए अरुणा बलम (जेसी-372613पी), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-372725पी), 01 मई 2004

नायब सूबेदार राजाराम पोद्दार (जेसी-372726एक्स), 14 जून 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार भूप चन्द्र (जेसी-372727ए), 01 जून 2004

नायब सूबेदार ए मणि मुथु (जेसी-372730ए), 01 जून 2004

नायब सूबेदार नीलकान्त दास (जेसी-372732एल), 01 जून 2004

स्थाई सूबेदार (ओ पी स्पेशल) के रैंक में

नायब सूबेदार राम परवेश सिंह (जेसी-372447एम), 12 मई 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रमन के (जेसी-372497एक्स), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार सिवरामा पिल्लई के (जेसी-372498ए), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार रमादास कूदाली (जेसी-372499एच), 10 अप्रैल 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार दीप चन्द (जेसी-372522एल), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार तारक नाथ शां (जेसी-372523एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार आर एस सुन्दरम (जेसी-372524डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार जुगमेल सिंह (जेसी-372525आई), 13 जून 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रवीन्द्र नाथ घोष (जेसी-372568एन), 07 जून 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र पाल चौहान (जेसी-372569डब्ल्यू), 01 जून 2004

नायब सूबेदार पुष्पीराज सेनापति (जेसी-372616एच), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार जेटे लाल (जेसी-372619डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार पूर्णा राम (जेसी-372687के), 14 जुलाई 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार एम एस दत्ता (जेसी-372688एम), 01 जुलाई 2004

स्थाई सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार विनय कुमार श्रीवास्तव (जेसी-371179एफ), 01 मई 2004

नायब सूबेदार राम प्रकाश (जेसी-371180डब्ल्यू), 01 मई 2004

नायब सूबेदार रवीन्द्र दास (जेसी-371185के), 01 जून 2004

नायब सूबेदार जय सिंह (जेसी-371184एम), 01 जून 2004

नायब सूबेदार भूपाल सिंह कच्छरी (जेसी-371185पी), 01 जून 2004

नायब सूबेदार रमवीर सिंह गहलोत (जेसी-371186एक्स), 01 जून 2004

नायब सूबेदार पाटिल बाबुराव गानू (जेसी-371188एच), 01 जून 2004

स्थाई सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार रेवती प्रसाद (जेसी-374445ए), 29 जून 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-373257एम), 01 जून 2004

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार जयादेबा दाश (जेसी-373533के), 02 जून 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सिन्नाथम्बी एम (जेसी-372796डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार धरम पाल (जेसी-373023एच), 12 मई 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार श्री आर ए फ्रांसिस (जेसी-373187वाई), 18 मई 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अनिल कुमार राय (जेसी-373212एम), 01 मई 2004

नायब सूबेदार अजीत कुमार (जेसी-373213पी), 01 मई 2004

नायब सूबेदार एस कुमार बदजेना (जेसी-373216एच), 17 मई 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम निवास सिंह (जेसी-375217एल), 01 मई 2004

नायब सूबेदार लक्ष्मी नारायण (जेसी-373218एन), 07 मई 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार धरम पाल (जेसी-373221एन), 01 मई 2004

नायब सूबेदार जितेन सिन्हा (जेसी-373226एम), 01 जून 2004

नायब सूबेदार मन्सा राम (जेसी-373228एक्स), 16 जून 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-373262एक्स), 01 जून 2004

नायब सूबेदार राम सजीवन (जेसी-373264एच), 01 जून 2004

नायब सूबेदार पवार तुलसीदास बी आर (जेसी-373265एल), 01 जून 2004

नायब सूबेदार भूप सिंह यादव (जेसी-373266एन), 01 जून 2004

नायब सूबेदार शम्भू नाथ (जेसी-373267डब्ल्यू), 01 जून 2004

नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-373270डब्ल्यू), 01 जून 2004

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-373271वाई), 01 जून 2004

नायब सूबेदार राम प्रबल सिंह (जेसी-373272एफ), 16 जुलाई 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार मनोहर लाल शर्मा (जेसी-373278एच), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार पतियार सिंह (जेसी-373190वाई), 02 जुलाई 2004

नायब सूबेदार शाम सिंह (जेसी-373279एल), 02 जुलाई 2004

नायब सूबेदार चन्द्रा के आर दत्ता (जेसी-373280ए), 02 जुलाई 2004

तोपखाना अभिलेख

सब्सटैंटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार अदिमुलन एस (जेसी-263836डब्ल्यू), 15 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003*

नायब सूबेदार ओमकार चन्द (जेसी-261084वाई), 04 फरवरी 2004/21 दिसम्बर 2003*

नायब सूबेदार पूरन चन्द्र तब्दवाल (जेसी-260939के), 09 फरवरी 2004/24 दिसम्बर 2003*

नायब सूबेदार हरी सिंह (जेसी-263692वाई), 11 मार्च 2004/31 दिसम्बर 2003*

नायब सूबेदार केशर सिंह (जेसी-262914डब्ल्यू), 19 मार्च 2004/30 दिसम्बर 2003*

नायब सूबेदार अन्धारे अरुन त्रिंबक (जेसी-261328एफ), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार रामबाबु (जेसी-261142एक्स), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार कुलदीप चन्द (जेसी-263174वाई), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार सत्य प्रकाश (जेसी-262935एन), 06 फरवरी 2004/05 जनवरी 2004*

नायब सूबेदार धरम सिंह (जेसी-263526एल), 19 जनवरी 2004/13 जनवरी 2004*

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-260191एन), 15 फरवरी 2004/14 जनवरी 2004*

नायब सूबेदार रनजीत सिंह (जेसी-263466एफ), 29 फरवरी 2004/19 जनवरी 2004*

नायब सूबेदार सुकुमारन ए (जेसी-264116एफ), 01 मार्च 2004/24 जनवरी 2004*

नायब सूबेदार संकरा सुब्बा ए (जेसी-260859एम), 10 मार्च 2004/01 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार देव कान्ता ओजा (जेसी-262451एस), 08 मार्च 2004/01 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार गणपति यशवन्त माने (जेसी-262634एच), 07 मार्च 2004/01 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-262768एफ), 07 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार अंग्रेज सिंह (जेसी-263018एफ), 10 अप्रैल 2004/01 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार जगदीश राज (जेसी-264168एक्स), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह यादव (जेसी-262633ए), 06 मई 2004/09 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार शिवनाथ सिंह (जेसी-261516एच), 16 फरवरी 2004

नायब सूबेदार बाबलसुरे अशोक रामराव (जेसी-263873एच), 13 मई 2004/26 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार विश्वनाथ यादव (जेसी-259141डब्ल्यू), 22 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार करपे प्रवीन विश्वनाथ (जेसी-260762एफ), 25 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-260896ए), 24 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द (जेसी-261013एक्स), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-261115एन), 11 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-261118एफ), 11 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार राजीव कुमार टी भी (जेसी-261471एन), 29 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार गुप्त सिंह (जेसी-261982एक्स), 14 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार रमेश प्रसाद (जेसी-262203डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार रमेश चन्द रनाउत (जेसी-262187के), 08 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार करतार सिंह (जेसी-263134एल), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार मधुसूदन प्रसाद (जेसी-262950एफ), 07 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार सागर दिनकर बलराम (जेसी-263073एल), 30 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह बिष्ट (जेसी-263193के), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-263765ए), 07 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार आगर नाथ टिग्गा (जेसी-263767एल), 04 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार गणपती रायमाने (जेसी-264014एल), 17 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार लाल बिहारी सिंह (जेसी-264282पी), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार कर्नल सिंह (जेसी-264249एक्स), 14 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-264412एम), 06 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार रामराव नागेश पाटिल (जेसी-262788पी), 18 मार्च 2004/03 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह (जेसी-263834एल), 23 मई 2004/15 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-263543एल), 16 अप्रैल 2004/17 मार्च 2004 *

(*ज्येष्ठता प्राप्ता)

र. चतुर्वेदी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 559, दिनांक 12 अक्टूबर 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नत करते हैं :-

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
कप्तान से मेजर

आई सी सं.	नाम एवं आर्म
45960	संजय यादव, आर्टी

--29 अक्टूबर 2000

(लेकिन वेतन एवं भत्ते 29 अक्टूबर 2001 से देय)

46633	विनोद कुमार, एएससी
-------	--------------------

--08 नवम्बर 2003

49378	दीपक कुमार, ईएमई
-------	------------------

--11 नवम्बर 2001

(लेकिन वेतन एवं भत्ते 11 नवम्बर 2002 से देय)

51553	दीपीन्द्र सिंह चौमा, इन्फैन्ट्री
-------	----------------------------------

--19 दिसम्बर 2003

51815	अजय सिंह नेगी, एएससी
-------	----------------------

--19 दिसम्बर 2002

आई सी सं.	नाम एवं आर्म	एस एस सं.	नाम एवं आर्म
52391	अवतार सिंह शेखोंद, ईन्ट	33936	अविनाश जसवाल, एओसी
52554	सैयद तक्वी अब्बास रिजवी, एएससी		--11 मार्च 1998
52664	अनिल अमर, एएससी	33950	गुरजिन्दर बिनेपाल, आर्टी
52562	गौरव शर्मा, ईन्ट		--24 अप्रैल 1998
	--11 दिसम्बर 2003	33965	अजय रंभावा, आर्टी
53047	दिग्विजय सिंह, इन्फैन्ट्री	34014	दलाजीत सिंह, आर्टी
	--11 जून 2004		--11 मार्च 1998
55010	ए आर मधुसूदन, एएससी	34179	कुलजीत सिंह, आर्टी
	--19 अप्रैल 2004	34219	राजेन्द्र, इंजीनियर्स
55301	मनीष कुमार व्यास, इंजी		--26 अगस्त 1998
	--21 अक्टूबर 2003	34385	विनय राम किशोर सिंह, एएससी
46606	नृपेन्द्र कुमार शर्मा, ईएससी	34474	राकेश पांडे, एएससी
	--08 नवम्बर 2000		--09 मार्च 1999
51792	कुलराज सिंह काजल, इन्फैन्ट्री	34585	तेजिन्द्र बीर सिंह, जेएजी
	--19 दिसम्बर 2003		--25 अगस्त 1999
एस एस सं.	नाम एवं आर्म	एस एस सं.	नाम एवं आर्म
04595	जी आर चौधरी, एसएल/एसपीटी	34793	अमर लाल बापा, एएससी
04596	गुरबख्श सिंह, एसएल/एपीटीसी		--09 मार्च 2000
	--08 जून 2003	36115	संदीप कुकरेती, इन्फैन्ट्री
04662	एस बी श्योरान, एसएल/एपीटीसी		--20 अगस्त 2003
	--15 दिसम्बर 2002		स्वाई कमीशन लेफ्टिनेंट से कैप्टन
आई सी सं.	नाम एवं आर्म	एस सी सं.	नाम एवं आर्म
52735	तपन चौहान, एडी आर्टी	270	सुरेन्द्र सिंह बधवार, एसी
52737	सकट सिंह कुशवाहा, इंजी.	271	उदय कुमार पी, एएससी
52739	बीजू वी, इंजी.	272	प्रेसीपन सीक्वेरा, ईएमई
52754	अब्राहम चेरियन, आर्टी	273	इन्द्र सेन पाठक, आर्टी/एफडी
52889	पूरव कौशल, इंजी.	274	जेम्स के ए, आर्टी/एफडी
52917	शंकर पराशर, एएससी	275	जोसफ मैथ्यू, ईएमई
52928	के रामाकृष्णन, इन्फैन्ट्री	276	सी वाण्जीराम, इंजीनियर्स
52970	विवेक महाजन, एएससी	277	दिब्येन्द्र कुमार त्रिपाठी, सिग्नल्स
	--11 जून 2004	278	इंडियस मसीह, एडी आर्टी
	अल्पकालीन कमीशन लेफ्टिनेंट से अर्धस्थायी कप्तान	279	रामसुगम गणेशन, इन्फैन्ट्री
एस एस सं.	नाम एवं आर्म	एस एस सं.	नाम एवं आर्म
33911	एन एस राठौर, इंजीनियर्स	280	भास्कर दत्त, इंजीनियर्स
	--24 अप्रैल 1998	281	धन बहादुर पुन, इन्फैन्ट्री
		282	पवन कुमार बापा, मैक इन्फैन्ट्री
		283	तीर्थ राम मौर्या, इन्फैन्ट्री

एस सी सं. नाम एवं आर्म

- 284 होम बहादुर गुर्गा, इन्फैन्ट्री
 285 रत्न रेड्डी कुक्कल, आर्टी/एफडी
 286 धामस कुट्टी एन सी, इन्फैन्ट्री
 287 जी एच मुस्ताफा बेग, इन्फैन्ट्री
 288 रघुनाथ सिंह, इन्फैन्ट्री

--13 मई 2004

स्वायं कमीशन
 कप्तान से मेजर

आई सी सं. नाम एवं आर्म

- 52929 आशीष रंजन, मेक इन्फैन्ट्री
 53042 निखिल श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
 53089 सुदेश कुमार सिंह, एसी

--11 जून 2004

के एस वर्मा
 संयुक्त निदेशक
 एम एन डी

सं. 560, दिनांक 13 अक्टूबर 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थापी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में

- (आईसी-35796) के. जे. सिंह, ईएमई--01 दिसम्बर 2000
 (आईसी-35799) बी. एस. भंगू, इंजीनियर--01 दिसम्बर 2000
 (आईसी-35800) पी. सी., जगिषा ईएमई--01 दिसम्बर 2000
 (आईसी-35834) ए. एस. नागरा, ईएमई--01 दिसम्बर 2000
 (आईसी-35854) टी. के. मांजी, ईएमई--01 दिसम्बर 2000
 (आईसी-35855) जी. एस. गुरों, ईएमई--01 दिसम्बर 2000
 (आईसी-35867) आर. आर. श्रीवास्तव, ईएमई--01 दिसम्बर 2000
 (आईसी-35878) जी. डी. एस. बिन्दा, इंजीनियर--01 दिसम्बर

2000

- (आईसी-35892) बी. के. त्यागी, इंजीनियर--01 दिसम्बर 2000
 एस डांगवाल (एसएल-02894), एपीटीसी--06 अगस्त 2001
 (परन्तु वरिष्ठता 01 नवम्बर 1994 से वेतन और पेंशन पर बिना प्रभाव के)
 एस. के. चौहान (आईसी-30764), इन्फैन्ट्री--01 जनवरी 1998
 आर. के. सिंह (आईसी-41382), इन्फैन्ट्री--18 जून 2003

- सतधिम्वजीत सिंह (आईसी-41369), इन्फैन्ट्री--18 जून 2003
 अभित राय (आईसी-45096), एडीए--26 अप्रैल 2003
 एस मोहपात्रा (आईसी-41392), एसी--18 जून 2003
 काई सोरोट (आईसी-41532), एडीए--17 दिसम्बर 2003
 एच. के. जैन (आईसी-41989), आर्टी--09 जून 2004
 बी. बी. बाप (आईसी-41943), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 आर. एस. गेहलोत (आईसी-42246), एसी--09 जून 2004
 ए. के. मालिक (आईसी-44016), इंजीनियर्स--14 जून 2004
 जी. एस. खतकर (आईसी-42052), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 कांवलजीत सिंह (आईसी-41917), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 बी. के. कोटमाला (आईसी-43999), सिग्नल्स--14 जून 2004
 चरणजीत सिंह (आईसी-45227), आर्टी--25 अप्रैल 2004
 सुखजीत सिंह (आईसी-42239), इंजीनियर्स--09 जून 2004
 के. उम्ल (आईसी-39713), आर्टी--13 जून 2001
 पी. कुमार (आईसी-39524), आर्टी--13 जून 2001
 पी. बी. के. आर. रॉय (आईसी-39776), आर्टी--13 जून 2001
 एम. धील (आईसी-39658), इन्फैन्ट्री--13 जून 2001
 आर. एस. दहिषा (आईसी-39290), एमोसी--17 फरवरी 2001
 राजीव डी. नायर (आईसी-42193), इंजीनियर्स--09 जून 2004
 के. एस. रावत (आईसी-43624), सिग्नल्स--18 दिसम्बर 2003
 अनिल तिबारी (आईसी-42060), इंजीनियर्स--09 जून 2004
 जी. एस. धुमान (आईसी-44009), इंजीनियर्स--14 जून 2004
 एस. सी. कोहर (आईसी-42170), आर्टी--09 जून 2004
 मोहन कुमार (आईसी-41956), ईएमई--09 जून 2004
 सी. अशोक कुमार (आईसी-42058), ईएमई--09 जून 2004
 आर. एस. शुक्ला (आईसी-42112), इंजीनियर्स--09 जून 2004
 नागेन्द्र सिंह (आईसी-44024), इंजीनियर्स--14 जून 2004
 ए. चौधरी (आईसी-40116), आर्टी--19 दिसम्बर 2001
 जे. पी. सिंह (एसएल-03582), एस एल (क्यू एम)--13 जून 2001
 एस. के. सिन्हा (आईसी-40552), आर्टी--12 जून 2002
 पी. कुलश्रेष्ठ (आईसी-37912), इन्फैन्ट्री--27 अप्रैल 2002
 पी. बी. सिवराम (आईसी-43629), ईएमई--18 दिसम्बर 2003
 पंकज मालविया (आईसी-43184), इंजीनियर्स--19 जून 2003
 जे. जे. एस. कुमार (आईसी-45257), आर्टी--25 अप्रैल 2004

त्रिलोचन सिंह (एसएल-03058), सिग्नल्स--25 जुलाई 2003
 जयपाल रामपाल (आईसी-41832), आईसी--17 दिसम्बर 2003
 एन. एस. शेखावत (आईसी-42005), एससी--09 जून 2004
 सी. वी. वी. सुब्रमण्यम (आईसी-42236), सिग्नल्स--09 जून 2004
 राजीव साहनी (आईसी-42091), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 ए. के. सचदेवा (आईसी-45271), इन्फैन्ट्री--25 अप्रैल 2004
 आर. एस. ग्रेवाल (आईसी-41721), एससी--17 दिसम्बर 2003
 डी के शर्मा (आईसी-41425), एस सी--18 जून 2003
 प्रवीण पी ठाकरे (आईसी-42188), सिग्नल्स--09 जून 2004
 संजय शर्मा (आईसी-42228), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 नरीन्द्र सिंह (आईसी-42206), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 एन देवा कुमार (आईसी-44035), इंजी.--14 जून 2004
 ए के ध्यास (आईसी-42263), ए ई सी--09 जून 2004
 पी मेहता (आईसी-43640), सिग्नल्स--18 जून 2004
 हरजीत सिंह वेदी (आईसी-45231), सिग्नल्स--25 अप्रैल 2004
 आर जे कुटे (आईसी-45223), आर्टी--25 अप्रैल 2004
 जे एस भण्डारी (आईसी-45230), ए डी ए--25 अप्रैल 2004
 सी शर्मा (आईसी-42108), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 देव सीश राय (आईसी-42242), ए ई सी--09 जून 2004
 एम के शर्मा (आईसी-42177), सिग्नल्स--09 जून 2004
 गुणमोहन सिंह (आईसी-42227), सिग्नल्स--09 जून 2004
 वी के भारद्वाज (आईसी-40896), सिग्नल्स--24 दिसम्बर 2002
 एन गिरी (आईसी-45074), आर्टी--26 अप्रैल 2003
 एस के जेना (आईसी-41785), आर्टी--17 दिसम्बर 2003
 ए के पाण्डे (आईसी-40989), इन्फैन्ट्री--24 दिसम्बर 2002
 डी एन झा (आईसी-41443), ए ई सी--18 जून 2003
 एन एस चौहान (एस एल-03045), एस एल (आर ओ)--
 15 जुलाई 2003

आर बड़ी आड़का (एस एल-03059), एस एल--25 जुलाई 2003
 जगदेव सिंह राना (आईसी-41312), ईएमई--18 जून 2003
 डी भार्गव (आईसी-41552), आर्टी--17 दिसम्बर 2003
 ए पी श्रीवास्तव (आईसी-45101), ईएमई--26 अप्रैल 2003
 वाई एस गुलेरिया (आईसी-45087), एस सी--26 अप्रैल 2003
 ए चौधुरी (आईसी-45078), ए डी ए--26 अप्रैल 2003
 डी के शर्मा (आईसी-41096), ए डी ए--18 जून 2003

प्रदीप सिंह (आईसी-41706), एससी--17 दिसम्बर 2003
 अनिल सिंह (आईसी-41026), आर्टी--24 दिसम्बर 2002
 वी एस भट्टी (आईसी-40525), आर्टी--12 जून 2002
 एस सी पाण्डेय (आईसी-40931), आर्टी--24 दिसम्बर 2002
 रणवीर सिंह (आईसी-40998), आर्टी--24 दिसम्बर 2002
 बूट सिंह (आईसी-39166), आर्टी--13 दिसम्बर 2002
 करमजीत सिंह (आईसी-37989), आर्टी--11 नवम्बर 2002
 एस कुमार (आईसी-40121), आर्टी--24 दिसम्बर 2002
 वी भक्ता (आईसी-40460), आर्टी--12 जून 2002
 टी के सिंह (आईसी-40089), इन्फैन्ट्री--19 दिसम्बर 2001
 ए के तनेजा (आईसी-39256), आर्टी--13 दिसम्बर 2000
 ए के अबोट (आईसी-39787), इन्फैन्ट्री--13 जून 2001
 पी सुन्दरेश्वरन (आईसी-37973), आर्टी--11 नवम्बर 2002
 पी वी हरी (आईसी-40898), आर्टी--24 दिसम्बर 2002
 बलजीत सिंह (आईसी-40840), इन्फैन्ट्री--24 दिसम्बर 2002
 पी एस विर्क (आईसी-42125), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 आर के शर्मा (आईसी-42216), एस एस सी--09 जून 2004
 पी के पाण्डे (आईसी-42132), सिग्नल्स--09 जून 2004
 एस दत्त (आईसी-42202), एस सी--09 जून 2004
 परमजीत सिंह (आईसी-42230), इंजी.--09 जून 2004
 डी एस सिसोदीआ (आईसी-42172), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 एस के जोशी (आईसी-42195), आर्टी--09 जून 2004
 ए के चौहान (आईसी-42159), एस सी--09 जून 2004
 राजीव भारद्वाज (आईसी-41902), इंजी.--09 जून 2004
 संजय कपील (आईसी-42221), ए ओ सी--09 जून 2004
 ए सामन्ता (आईसी-42106), ए ओ सी--09 जून 2004
 एस के शर्मा (आईसी-45105), एस एस सी--26 अप्रैल 2003
 एस वावा (आईसी-45204), एस एस सी--25 अप्रैल 2004
 पी पी चाराकाटी (आईसी-42146), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 सी एस सुन्दरम (आईसी-42205), आर्टी--09 जून 2004
 के आर कनाडे (आईसी-42254), ए ई सी--09 जून 2004
 सी वी पाण्डेय (आईसी-44012), ई एम ई--14 जून 2004
 आर एस शेखावत (आईसी-37710), इन्फैन्ट्री--14 नवम्बर 2002
 एन एन सिंह (आईसी-41903), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004

पी के सिंह (आईसी-42249), ए ई सी--09 जून 2004
 एस एस चाटी (आईसी-45196), आर्टी--25 अप्रैल 2004
 आर चौहान (आईसी-42122), आर्टी--09 जून 2004
 जे एस रणधावा (आईसी-45281), ई एम ई--25 अप्रैल 2004
 के अशोकान (आईसी-44033), सिग्नल्स--14 जून 2004
 वी के दास (आईसी-42061), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 तरुण शर्मा (आईसी-44023), इंजीनियर्स--14 जून 2004
 शमशुल हुधा (आईसी-42167), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 डी एस कडयान (आईसी-42233), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 ए गौर (आईसी-42211), आर्टी--09 जून 2004
 एल के तिवारी (आईसी-42135), ईन्ट--09 जून 2004
 वी डी शर्मा (आईसी-42086), ईन्ट--09 जून 2004
 एल वेलवाल (आईसी-41954), आर्टी--09 जून 2004
 संदीप कोहली (आईसी-45222), ए ओ सी--25 अप्रैल 2004
 डी सी राय (आईसी-42222), आर्टी--09 जून 2004
 ए के गुलाटी (आईसी-42075), आर्टी--09 जून 2004
 आर खासला (आईसी-42154), आर्टी--09 जून 2004
 एच एन जाधव (आईसी-42137), ए एस सी--09 जून 2004
 आर आर कामत (आईसी-40878), सिग्नल्स--24 दिसम्बर 2002
 रामपाल सिंह (आईसी-42009), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 जी एस संधू (आईसी-35241), इन्फैन्ट्री--10 जून 99
 वाई एस पवनिया (आईसी-45243), आर्टी--25 अप्रैल 2004
 पी के सक्सेना (आईसी-42265), ए ई सी--09 जून 2004
 एस सी चौधरी (आईसी-41916), मैक इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 एस जी मैथ्यू (आईसी-42014), इन्फैन्ट्री--09 जून 2004
 बी श्याम सुन्दर (आईसी-42199), सिग्नल्स--09 जून 2004
 एस के शर्मा (आईसी-42260), ए ई सी--09 जून 2004
 आर पी दहिया (एस एल-03026), एस एल (आर ओ)--25
 जुलाई 2003

आर के चौबे (एस एल-03020), एस एल (आर ओ)--25 जुलाई
 2003

शशि शंकर सिन्हा
 उप निदेशक
 एम एस -8ए

सं. 561, दिनांक 13 अक्टूबर 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित
 अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना
 स्थाई कमीशन
 (सेना चिकित्सा कोर)

सर्जन कोमोडोर (व समकक्ष) से रियर एडमिरल (व समकक्ष) पद पर

जे एम बोरकर (एम आर-02931एच) (75116टी), 05 जुलाई 2004
 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29 मार्च
 2004 से दी जाती है।

कर्नल से ब्रिगेडियर

कर्नल (श्रीमती) पी वाल्सला एन आर-14827एफ, 04 जून 2003

कर्नल (श्रीमती) टी पदमिनी एन आर-14840एल, 01 जुलाई 2003

उपा सिकंदर
 मेजर जनरल
 ए डी जी एम एन एस

सं. 562, दिनांक 13 अक्टूबर 2004--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय
 सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) श्री जी. एस. सरपाल की
 अधिवृत्तिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 अगस्त 2004 (अपराह्न) से
 सेवानिवृत्त करते हैं।

वी. सरस्वती
 उप सचिव

सं. 563, दिनांक 12 अक्टूबर 2004--

(सेना शाखा)
 नियमित सेवा
 अल्पकालीन सेवा आयोग
 शुद्धि-पत्र

भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 24 अप्रैल 1999 को
 प्रकाशित अधिसूचना के शीर्षक "नियमित सेना" के अन्तर्गत उपशीर्षक
 "अल्पकालीन सेवा आयोग" "लै. के पद पर" के अन्तर्गत प्रकाशित
 सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

वैयक्तिक संख्या एस एस-37249- के नाम के सामने :--

के लिये

सुमित राना

पढ़ें

सुमित बाना

अरविन्द कुमार
 मेजर

उप सह सेना सचिव/एम एस 8वीं

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 06th November 2004

No. 555, dated the 13th October 2004.—The President is pleased to appoint Shri M. K. Mookherjee as Additional Private Secretary to Raksha Mantri (Shri Pranab Mukherjee) in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- with effect from the forenoon of 28th May, 2004 till the Minister demits office or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Viswanathan K as 1st PA to Raksha Utpadan Rajya Mantri (Shri B. K. Handique) in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- with effect from the forenoon of 25.06.2004 till Raksha Utpadan Rajya Mantri demits office or till further orders, whichever is earlier.

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

INTEGRATED HEADQUARTERS—MINISTRY OF DEFENCE (NAVY)

(DTE OF ADMIN/CIV SECTION)

No. 556, dated the 08th October 2004.—The President is pleased to appoint Smt. Hemlatha Madhavan, PS as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the AFHQ Civil Service w.e.f. 30.04.2004 in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- on his being successful in LDCE 2002 conducted by UPSC.

The President is pleased to appoint Shri KJ Methew, Assistant as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the AFHQ Civil Service w.e.f. 30.04.2004 in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- on his being successful in LDCE 2002 conducted by UPSC.

The President is pleased to appoint Shri DB Tiwari, Dy. Dir. (OL) as Jt. Director (OL) (Group 'A' Gazetted) in the AFHQ Civil Service w.e.f. 23.08.2004 in the pay scale of Rs. 12000—16500/-.

The President is pleased to appoint Shri BP Dhasmana, Private Secretary of AFHQ Stenographers' Service as Principal Private Secretary (Group 'A' Pay Scale Rs. 10,000—15,200/-) on adhoc basis w.e.f. 20.08.2004 for a period upto 31.12.2004 or till availability of regular panel for promotion or till he retires, whichever is earlier.

2. The adhoc promotion shall be operated on purely temporary basis and can be terminated on administrative grounds without issuing any prior notice to this effect. The above officer so granted adhoc promotion shall have no claim for regular promotion/appointment on the basis of adhoc promotion granted now. The period of such appointment shall not count towards his seniority in the grade of PPS.

The President is pleased to appoint Shri Vinay Grover, Personal Assistant of AFHQ Stenographers' Service as

Private Secretary (Group 'B' Gazetted) in the pay scale Rs. 6,500-200-10,500/- on temporary promotion basis w.e.f. 30.06.2004 for a period upto 30.06.2004 or availability of regular incumbents, whichever is earlier:—

2. Appointment of the above mentioned officer as Private Secretary is made under AFHQ Stenographers Service Regulations, on the conditions mentioned below:—

(g) The appointment is purely on temporary basis and can be terminated without notice for administrative reasons.

(h) He will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will his service rendered on temporary basis reckon for seniority.

SANTOSH DASGUPTA
Dy. Chief Administrative Officer (A)

(AIR FORCE)

No. 557, dated the 11th October 2004.—The President is pleased to make the following Substantive Promotion:—

ADM BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

S Yadav (23005)

—18 June 2004—

AE (M) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

S Mehta (25952)

—01 January 2003—

AE (L) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

S Harikrishnan (25967), N Rajnikanta Singh (25968), YL Khan (25995), LJ Ajish (26002), V Ganesan (26275)

—01 January 2003—

F (P) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

KS Kakade (22330), R Ramalingam (22333)

—20 February 2003—

AE (L) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

MP Singh (22295)

—06 February 2004—

F (P) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Deepto Roy (25347) wef 19 Dec 2002

ADM BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Manuj Sharma (25646)

—19 June 2003—

S SRIVASTAV

Sqn Ldr

DDPO 3(D)

(ARMY BRANCH)

No. 558, dated the 11th October 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

(ARMY MEDICAL CORPS)

Lt Col (& equivalent) to be Col (& equivalent)

R N Kothari (MR-04037Y), 02.08.2003 with notional seniority without effect on pay & pension from 01.10.2000.

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

ML Chawla (MR-2068A), 03.04.2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 01.07.2002.

CORPS OF SIGNALS

To be Substantive Subedar (Y of S)

Nb Sub Ramachandran P (JC-371957F), 04 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 02 May 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahender Singh (JC-370953Y), 03 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 19 May 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Vishesh Kumar (JC-371958K), 21 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahendra Prusoth (JC-371959M), 01 Jun 2004

Nb Sub R Rathinasabapathy (JC-371998L), 02 Feb 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub V G Nambiar A C (JC-372011F), 01 May 2004

Nb Sub Fande Balaprasad C R (JC-372013M), 20 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Salil Baran Roy (JC-372014P), 01 May 2004

Nb Sub M S Chauhan (JC-372017H), 01 May 2004

(Nb Sub Raju Ram (JC-372020H), 01 Jun 2004

Nb Sub Nityanand Roy (JC-372021L), 01 Jun 2004

Nb Sub Kadar Singh Baghel (JC-372022N), 11 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Arun Prasad (JC-372024Y), 01 Jun 2004

Nb Sub Ashok Kumar (JC-372027H), 01 Jun 2004

Nb Sub Harendra Singh (JC-372029X), 19 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Subedar (OP Ciph)

Nb Sub A Aruna Chalam (JC-372613P), 01 Apr 2004

Nb Sub Tilak Raj (JC-372725P), 01 May 2004

Nb Sub Rajaram Poddar (JC-372726X), 14 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhoop Chandra (JC-372727A), 01 Jun 2004

Nb Sub A Mani Muthu (JC-372730A), 01 Jun 2004

Nb Sub Nilkanta Das (JC-372732L), 01 Jun 2004

To be Substantive Subedar (OP Spec)

Nb Sub Ram Parvesh Singh (JC-372447M), 12 May 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raman K (JC-372497X), 01 Apr 2004

Nb Sub Sivarama Pillai K (JC-372498A), 01 Apr 2004

Nb Sub Ramadas Koodali (JC-372499H), 10 Apr 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Deep Chand (JC-372522L), 01 Apr 2004

Nb Sub Tarak Nath Shaw (JC-372523N), 01 Apr 2004

Nb Sub R S Sundaram (JC-372524W), 01 Apr 2004

Nb Sub Jugmail Singh (JC-372525Y), 13 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rabindra Nath Ghosh (JC-372568N), 07 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surender Pal Chauhan (JC-372569W), 01 Jun 2004

Nb Sub Pruthwiraj Senapati (JC-372616H), 01 Jul 2004

Nb Sub Chhote Lal (JC-372619W), 01 Jul 2004

Nb Sub Purna Ram (JC-372687K), 14 Jul 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub N S Datta (JC-372688M), 01 Jul 2004

To be Substantive Subedar (Clk GD)

Nb Sub Vinay Kumar Srivastva (JC-371179F), 01 May 2004

Nb Sub Ram Prakash (JC-371180W), 01 May 2004

Nb Sub Rabindra Das (JC-371183K), 01 Jun 2004

Nb Sub Jai Singh (JC-371184M), 01 Jun 2004

Nb Sub Bhupal Singh Kandari (JC-371185P), 01 Jun 2004

Nb Sub Ranbir Singh Gehlaut (JC-371186X), 01 Jun 2004

Nb Sub Patil Baburao Ganu (JC-371188H), 01 Jun 2004

To be Substantive Subedar (SKT)

Nb Sub Rewati Prasad (JC-374445A), 29 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surender Kumar Sharma (JC-373257M), 01 Jun 2004

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Jayadeba Dash (JC-373533K), 02 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sinnathamby M (JC-372796W), 01 Jul 2003

Nb Sub Dharam Pal (JC-373023H), 12 May 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub R A Francis (JC-373187Y), 18 May 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Anil Kumar Rai (JC-373212M), 01 May 2004

Nb Sub Ajit Kumar (JC-373213P), 01 May 2004

Nb Sub S Kumar Badjena (JC-373216H), 17 May 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Nivas Singh (JC-373217L), 01 May 2004

Nb Sub Lakshmi Narayan (JC-373218N), 07 May 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharma Pal (JC-373221N), 01 May 2004

Nb Sub Jitan Sinha (JC-373226M), 01 Jun 2004

Nb Sub Mansa Ram (JC-373228W), 16 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rajendra Prasad (JC-373262X), 01 Jun 2004

Nb Sub Ram Sajivan (JC-373264H), 01 Jun 2004

Nb Sub Pawar Tulsidas B R (JC-373265L), 01 Jun 2004

Nb Sub Bhoop Singh Yadav (JC-373266N), 01 Jun 2004

Nb Sub Shambhu Nath (JC-373267W), 01 Jun 2004

Nb Sub Karan Singh (JC-373270W), 01 Jun 2004

Nb Sub Ramesh Chand (JC-373271Y), 01 Jun 2004

Nb Sub Ram Prabal Singh (JC-373272F), 16 Jul 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Manohar Lal Sharma (JC-373278H), 01 Jul 2004

Nb Sub Patiyar Singh (JC-373190Y), 02 Jul 2004

Nb Sub Sham Singh (JC-373279L), 02 Jul 2004

Nb Sub Chandra KR Dutta (JC-373280A), 02 Jul 2004

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Adimoolan S (JC-263836W), 15 Jan 2004/01 Dec 2003*

Nb Sub Omkar Chand (JC-261084Y), 04 Feb 2004/21 Dec 2003*

Nb Sub Puran Chandra Kabdwal (JC-260939K), 09 Feb 2004/24 Dec 2003*

Nb Sub Hari Singh (JC-263692Y), 11 Mar 2004/31 Dec 2003*

Nb Sub Keshar Singh (JC-262914W), 19 Mar 2004/30 Dec 2003*

Nb Sub Andhare Arun Trimbak (JC-261328F), 01 Jan 2004

Nb Sub Ram Babu (JC-261142X), 01 Jan 2004

Nb Sub Kuldeep Chand (JC-263174Y), 01 Jan 2004

Nb Sub Satya Prakash (JC-262935M), 06 Feb 2004/05 Jan 2004*

Nb Sub Dharam Singh (JC-263526L), 19 Jan 2004/13 Jan 2004*

Nb Sub Sumer Singh (JC-260191N), 15 Feb 2004/14 Jan 2004*

Nb Sub Ranjit Singh (JC-263466F), 29 Feb 2004/19 Jan 2004*

Nb Sub Sukumaran A (JC-264116F), 01 Mar 2004/24 Jan 2004*

Nb Sub Sankara Subbu A (JC-260859M), 10 Mar 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Deva Kanta Oja (JC-262451M), 08 Mar 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Ganapati Yashwant Mane (JC-262634H), 07 Mar 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Balbir Singh (JC-262768F), 07 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Angrez Singh (JC-263018P), 10 Apr 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Jagdish Raj (JC-264168X), 01 Feb 2004

Nb Sub Rajendra Singh Yadav (JC-262633A), 06 May 2004/09 Feb 2004*

Nb Sub Shivnath Singh (JC-261516H), 16 Feb 2004

Nb Sub Babalsure Ashok Ramrao (JC-263873K), 13 May 2004/26 Feb 2004*

Nb Sub Vishwanath Yadav (JC-259141W), 22 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Karpe Praveen Vishwanath (JC-260762F), 25 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Virendra Singh (JC-260896A), 24 Apr 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Parkash Chand (JC-261013X), 01 Mar 2004

Nb Sub Jagdish Singh (JC-261115N), 11 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Ram Niwas (JC-261118F), 11 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Sajeev Kumar TP (JC-261471N), 29 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Gupat Singh (JC-261982X), 14 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Ramesh Prasad (JC-262203W), 01 Mar 2004

Nb Sub Ramesh Chand Ranout (JC-262187K), 08 Apr 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Kartar Singh (JC-262134L), 01 Mar 2004

Nb Sub Madhusudan Prasad (JC-262950F), 07 Apr 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Sagar Dinkar Balaram (JC-263073L), 30 Apr 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Rajendra Singh Visht (JC-263193K), 01 Mar 2004

Nb Sub Tilak Raj (JC-263765A), 07 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Jagar Nath Tigga (JC-263767L), 04 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Ganapati Rayamane (JC-264014L), 17 Apr 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Lal Bihari Singh (JC-264282P), 01 Mar 2004

Nb Sub Karnail Singh (JC-264249X), 14 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Rajinder Singh (JC-264412M), 06 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Ramrao Nagesh Patil (JC-262788P), 18 Mar 2004/03 Mar 2004*

Nb Sub Prithvi Singh (JC-263834L), 23 May 2004/15 Mar 2004*

Nb Sub Ranbir Singh (JC-263543L), 16 Apr 2004/17 Mar 2004*

*(Gtd seniority wef)

R. CHATURVEDI
Under Secy.

No. 559, dated the 12th October 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

IC-45960 Sanjay Yadav, Arty

—29 Oct 2000—

(But Pay & allowances wef 29 Oct 2001)

IC-46633 Vinod Kumar, ASC

—08 Nov 2003—

IC-49378 Deepak Kumar, EME

—11 Nov 2001—

(But Pay & allowances wef 11 Nov 2002)

IC-51553 Deepinder Singh Cheema, Inf

—19 Dec 2003—

IC-51815 Ajay Singh Negi, ASC

—19 Dec 2002—

IC-52391 Avtar Singh Sekhon, Int

IC-52554 Syed Taqui Abbas Rizvi, ASC

IC-52664 Anil Amar, ASC

IC-52562 Gaurav Sharma, Int

—11 Dec 2003—

IC-53047 Digvijay Singh, Inf

—11 Jun 2004—

IC-55010 AR Madhusudan, ASC

—19 Apr 2004—

IC-55301 Manish Kumar Vyas, Engrs
—21 Oct 2003

IC-46606 Nripendra Kumar Sharma, ASC
—08 Nov 2000

IC-51792 Kulraj Singh Kajal, Inf
—19 Dec 2003

IC-04595 G R Choudhary, SL/ASPT
IC-4596 Gurbaksh Singh, SL/APTC
—08 Jun 2003

IC-4662 SV Sheoran, SL/APTC
—15 Dec 2002

IC-52735 Tapan Chowhan, AD Arty
IC-52737 Sakat Singh Kushwaha, Engrs
IC-52739 Biju V, Engrs
IC-52754 Abraham Cherian, Arty
IC-52889 Purav Kaushal, Engrs
IC-52917 Shankar Prashar, ASC
IC-52928 K Ramakrishnan, Inf
IC-52970 Vivek Mahajan, ASC
—11 Jun 2004

SHORT SERVICE COMMISSION

Lt to be quasi Substantive Capt

SS-33911 NS Rathore, Engr
—24 Apr 1998

SS-33936 Avinash Jaswal, AOC
—11 Mar 1998

SS-33950 Gurjinder Binopal, Arty
—24 Apr 1998

SS-33965 Ajay Randhawa, Arty
SS-34014 Daljit Singh, Arty
—11 Mar 1998

SS-34179 Kuljeet Singh Jaggi, Arty
SS-34219 Rajendra, Engrs
—26 Aug 1998

SS-34385 Vinay Ram Kishore Singh, ASC
SS-34474 Rakesh Pandey, ASC
—09 Mar 1999

SS-34585 Tejinder Bir Singh, JAG
—25 Aug 1999

SS-34793 Amar Lal Thapa, ASC
—09 Mar 2000

SS-36115 Sandeep Kukreti, Inf
—20 Aug 2003

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

SC-270 Surender Singh Badhwar, AC
SC-271 Udaya Kumar P, ASC
SC-272 Gracian Sequirea, EME
SC-273 Indra Sen Pathak, Arty/FD
SC-274 James KA, Arty/FD
SC-275 Joseph Mathew, EME
SC-276 C Vajjiram, Engrs
SC-277 Dibyendu Kumar Tripathi, Sigs
SC-278 Andreyas Masih, AD Arty
SC-279 Shanmogam Ganeshan, Inf
SC-280 Bhaskar Datta, Engrs
SC-281 Dhan Bahadur Pun, Inf
SC-282 Pawan Kumar Thapa, Mech Inf.
SC-283 Tirth Rama Mourya, Inf
SC-284 Hom Bahadur Gurung, Inf
SC-285 Ratna Reddy Kukkala, Arty/FD
SC-286 Thomas Kutty NC, Inf
SC-287 GH Mustafa Beg, Inf
SC-288 Raghunath Singh, Inf
—13 May 2004

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

IC-52929 Ashish Ranjan, Inf
IC-53042 Nikhil Srivastava, Inf
IC-53089 Sudesh Kumar Singh, AEC
—11 Jun 2004

K. S. VERMA
Jt. Dir.
MS-8C

No. 560, dated the 13th October 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION**

Lt Col to be Substantive Col

KJ Singh (IC-35796), EME—01 Dec 2000	C Ashok Kumar (IC-42058), EME—09 Jun 2004
BS Rhangoo (IC-35799), Engrs—01 Dec 2000	RS Shukla (IC-42112), Eng—09 Jun 2004
PC Jagia (IC-35800), EME—01 Dec 2000	Nagendra Singh (IC-44024), Eng—14 Jun 2004
AS Nagra (IC-35834), EME—01 Dec 2000	A Choudhary (IC-40116), Arty—19 Dec 2001
TK Manjee (IC-35854), EME—01 Dec 2000	JP Singh (SL-03582), SL (QM)—13 Jun 2001
GS Guron (IC-35855), EME—01 Dec 2000	SK Sinha (IC-40552), Arty—12 Jun 2002
RR Srivastava (IC-35867), EME—01 Dec 2000	P Kulshreshtha (IC-37912), Inf—27 Apr 2002
GDS Bindra (IC-35878), Engrs—01 Dec 2000	PV Sivaram (IC-43629), EME—18 Dec 2003
VK Tyagi (IC-35892), Engrs—01 Dec 2000	Pankaj Malviya (IC-43184), Eng—19 Jun 2003
S Dangwal (SL-02894), APTC—06 Aug 2001 but seniority from 01 Nov 1994 without effect on pay and pension.	JJS Kumar (IC-45257), Arty—25 Apr 2004
SK Chauhan (IC-30764), Inf—01 Jan 1998	Tarlochan Singh (SL-03058), Sigs—25 Jul 2003
RK Singh (IC-41382), Inf—18 Jun 2003	Jaipal Rampal (IC-41832), AEC—17 Dec 2003
Satvinderjit Singh (IC-41369), Inf—18 Jun 2003	NS Sekhawat (IC-42005), ASC—09 Jun 2004
Amit Roy (IC-45096), ADA—26 Apr 2003	CVB Subramanyam (IC-42236), Sigs—09 Jun 2004
S Mohapatra (IC-41392), AC—18 Jun 2003	Rajeev Sahni (IC-42091), Inf—09 Jun 2004
Y Shorot (IC-41532), ADA—17 Dec 2003	AK Sachdeva (IC-45271), 25 Apr 2004
HK Jain (IC-41989), Arty—09 Jun 2004	RS Garewal (IC-41721), AOC—17 Dec 2003
BB Thapa (IC-41943), Inf—09 Jun 2004	DK Sharma (IC-41425), ASC—18 Jun 2003
RS Gehlot (IC-42246), AEC—09 Jun 2004	Pravin P Thakre (IC-42188), Sigs—09 Jun 2004
AK Mallik (IC-44016), Eng—14 Jun 2004	Sanjay Sharma (IC-42228), Inf—09 Jun 2004
BS Khatkar (IC-42052), Inf—09 Jun 2004	Narinder Singh (IC-42206), Inf—09 Jun 2004
Kanvaljit Singh (IC-41917), Inf—09 Jun 2004	N Deva Kumar (IC-44035), Eng—14 Jun 2004
VK Kotnala (IC-43999), Sigs—14 Jun 2004	AK Vyas (IC-42263), AEC—09 Jun 2004
Charanjit Singh (IC-45227), Arty—25 Apr 2004	P Mehta (IC-43640), Sigs—18 Jun 2004
Sukhjit Singh (IC-42239), Eng—09 Jun 2004	Harjeet Singh Bedi (IC-45231), Sigs—25 Apr 2004
K Uppal (IC-39713), Arty—13 Jun 2001	R J Kute (IC-45223), Arty—25 Apr 2004
P Kumar (IC-39524), Arty—13 Jun 2001	J S Bhandari (IC-45230), ADA—25 Apr 2004
PVKR Rao (IC-39776), Arty—13 Jun 2001	C Sharma (IC-42108), Inf—09 Jun 2004
M Thyil (IC-39658), Inf—13 Jun 2001	Deb Singh Roy (IC-42242), AEC—09 Jun 2004
RS Dahiya (IC-39290), AOC—17 Feb 2001	MK Sharma (IC-42177), Sigs—09 Jun 2004
Rajeev D Nair (IC-42193), Eng—09 Jun 2004	Gurmohan Singh (IC-42227), Sigs—09 Jun 2004
KS Rawat (IC-43624), Sigs—18 Dec 2003	VK Bhardwaj (IC-40896), Sigs—24 Dec 2002
Anil Tiwari (IC-42060), Eng—09 Jun 2004	N Giri (IC-45074), Arty—26 Apr 2003
GS Ghumman (IC-44009), Eng—14 Jun 2004	S K Jena (IC-41785), Arty—17 Dec 2003
SC Kohar (IC-42170), Arty—09 Jun 2004	A K Panda (IC-40989), Inf—24 Dec 2002
Mohan Kumar (IC-41956), EME—09 Jun 2004	D N Jha (IC-41443), AEC—18 Jun 2003
	N S Chauhan (SL-3045), SL (RO)—25 Jul 2003
	R Badiadka (SL-3059), SL—25 Jul 2003
	Jagdev Singh Rana (IC-41312), EME—18 Jun 2003
	D Bhargava (IC-41552), Arty—17 Dec 2003

AP Srivastava (IC-45101), EME—26 Apr 2003
 Y S Gularia (IC-45087), ASC—26 Apr 2003
 A Chaudhury (IC-45078), ADA—26 Apr 2003
 DK Sharma (IC-41096), ADA—18 Jun 2003
 Pradeep Singh (IC-41706), AC—17 Dec 2003
 Anil Singh (IC-41026), Arty—24 Dec 2002
 B S Bhatti (IC-40525), Arty—12 Jun 2002
 S C Pandey (IC-40931), Arty—24 Dec 2002
 Ranvir Singh (IC-40998), Arty—24 Dec 2002
 Boota Singh (IC-39166), Arty—13 Dec 2002
 Karam Jeet Singh (IC-37989), Arty—11 Nov 2002
 S Kumar (IC-41021), Arty—24 Dec 2002
 B Bhakta (IC-40460), Arty—12 Jun 2002
 T K Singh (IC-40089), Inf—19 Dec 2001
 A K Taneja (IC-39256), Arty—13 Dec 2000
 A K Abbot (IC-39787), Inf—13 Jun 2001
 P. Sundareswaran (IC-37973), Arty—11 Nov 2002
 P V Hari (IC-40898), Arty—24 Dec 2002
 Baljeet Singh (IC-40840), Inf—24 Dec 2002
 P S Virk (IC-42125), Inf—9 Jun 2004
 R K Sharma (IC-42216), ASC—9 Jun 2004
 P K Pandey (IC-42132)—9 Jun 2004
 S Dutt (IC-42202), AC—9 Jun 2004
 Paramjit Singh (IC-42230), Eng—9 Jun 2004
 D S Shishodia (IC-42172), Inf—9 Jun 2004
 S K Joshi (IC-42195), Arty—9 Jun 2004
 A K Chauhan (IC-42159), AC—9 Jun 2004
 Rajiv Bhardwaj (IC-41902), Eng—9 Jun 2004
 Sanjay Kapil (IC-42221), A)C—9 Jun 2004
 A Samanta (IC-42106), A)C—9 Jun 2004
 S K Sharma (IC-45105), ASC—26 Apr 2003
 S Bawa (IC-45204), ASC—25 Apr 2004
 P P Barakati (IC-42146), Inf—9 Jun 2004
 C S Sundram (IC-42205), Arty—9 Jun 2004
 K R Kanade (IC-42254), AEC—9 Jun 2004
 C B Pandey (IC44012), EME—14 Jun 2004
 R S Shekhawat (IC-37710), Inf—14 Nov 2002
 N N Singh (IC-41903), Inf—9 Jun 2004
 P K Singh (IC-42249), AEC—9 Jun 2004
 S S Chati (IC-45196), Arty—25 Apr 2004

R Chawhan (IC-42122), Arty—9 Jun 2004
 J S Randhawa (IC-45281), EME—25 Apr 2004
 K Asokan (IC-44033), Sigs—14 Jun 2004
 B K Das (IC-42061), Inf—9 Jun 2004
 Tarun Sharma (IC-44023), Eng—14 Jun 2004
 Shamsul Hudha (IC-42167), Inf—9 Jun 2004
 D S Kadyan (IC-42233), Inf—9 Jun 2004
 A Gaur (IC-42211), Arty—9 Jun 2004
 L K Tiwari (IC-42135), Int—9 Jun 2004
 B D Sharma (IC-42086), Int—9 Jun 2004
 L Belwal (IC-41954), Arty—9 Jun 2004
 Sundeep Kohli (IC-45222), AOC—25 Apr 2004
 D C Rai (IC-42222), Arty—9 Jun 2004
 A K Gulati (IC-42075), Arty—9 Jun 2004
 R Khosla (IC-42154), Arty—9 Jun 2004
 H N Jadhav (IC-42137), ASC—9 Jun 2004
 R R Kamat (IC-40878), Sigs—24 Dec 2002
 Rampal Singh (IC-42009), Inf—9 Jun 2004
 G S Sandhu (IC-35241), Inf—10 Jun 1999
 Y S Pathania (IC-45243), Arty—25 Apr 2004
 P K Saxena (IC-42265), AEC—9 Jun 2004
 S C Choudhary (IC-41916), Mech, Inf—9 Jun 2004
 S G Mathew (IC-42014), Inf—9 Jun 2004
 B Shyam Sunder (IC-42199), Sigs—9 Jun 2004
 S K Sharma (IC-42260), AEC—9 Jun 2004
 R P Dahiya (SL-03026), SL (RO)—25 Jul 2003
 R K Chaubey (SL-03020), SL (RO)—25 Jul 2003

S. S. SINHA
 Dy. Dir.
 DAMS-8A

No. 561, dated the 13th October 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

(ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Cmde (& equivalent) to be Surg RADM (& equivalent)

JM Borcar (MR-02931H) (75116T), 05 Jul 2004 with notional seniority without effect on pay and pension from 29 Mar 2004

Col (Mrs) P Valsala (NR-14827F), 04 Jun 2003

Col (Mrs) T Padmini (NR-14840L), 01 Jul 2003

USHA SIKDAR
Maj Gen.
Addl. DGMNS

No. 562, dated the 13th October 2004.—The President is pleased to retire Shri G. S. Sarpal, CSS, Section Officer (ad hoc), Ministry of Defence with effect from 31.08.2004 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

(ARMY BRANCH)
CORRIGENDUM

No. 563, dated the 12th October 2004.—The President is pleased to make the following appointment:—

(REGULAR ARMY)
SHORT SERVICE COMMISSION
To be Lt

The Gazette Notification published on 24th Apr 1999 under heading "REGULAR ARMY" and Sub-heading "SHORT SERVICE COMMISSION To be Lts" is hereby amended as under:—

Name of SS-37249K

For : Sumit Rana Read : Sumit Bana

ARVIND KUMAR
Maj
DAMS-8B